SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LIMITED

Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 110029

Phone: +91-11-26169909, 26169712 Fax: +91-11-26195897

Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh - 462011

Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470 **Email**: compliance@somindia.com **Website**: www.somindia.com

CIN: L74899DL1993PLC052787 (BSE: 507514, NSE: SDBL)



27.07.2022

Tο

The Manager,

Listing Department,

SDBL/BSE/NSE/2022

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

'Exchange Plaza' C-1, Block G, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),

Mumbai-400 051. cmlist@nse.co.in Security ID: SDBL Dy. General Manager,

Department of Corporate Services,

BSE LIMITED,

First Floor, P.J. Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400001.
corp.compliance@bseindia.com

Security ID: 507514

SUB: NEWSPAPERS ADVERTISEMENT - NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir/Madam.

In terms of Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith advertisements published in newspapers i.e. Notice of Extra-Ordinary General Meeting.

The above-mentioned advertisement is published in Business Standard Hindi and Business Standard English, newspapers on July 27, 2022.

The same has also been uploaded on the Company's www.somindia.com.

This is for your information and records please.

For Som Distilleries & Breweries Limited

Om Prakash

Company Secretary & Compliance Officer

14.00%

सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: ।-ए. जी प्लाजा, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्वलेव, कमल सिनेमा रोड, नई दिल्ली-110029, फोन: + 91-11-26169909, 26169712, फैक्स: + 91-11-26195897 गॅ**पॅरिंट कार्यालयः** सोम हाउस, 23, जोन ॥, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)–462011 फोन: + 91-755-4278827, 4271271, फैक्स: + 91-755-2557470

ईमेल: compliance@somindia.com. वेबसाइट: www.somindia.com Website: www.somindia.com CIN: L74899DL1993PLC052787 (BSE: 507514, NSE: SDBL)

विशेष सामान्य बैठक की सूचना

शुक्रवार, 19 अगस्त 2022 को सुबह 11:30 बजे फैक्ट्री परिसर, ग्राम रोजराचक, चिकलोद रोड, जि . ।यसेन (मध्य प्रदेश) में व्यवसायों को लेन–देन करने के लिए, जैसा कि ईजीएम के नोटिस में बताया गया है श्रायोजित की जाएगी

कंपनी ने उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जुलाई 26, 2022 को ईजीएम के आयोजन की सूचना भेजी है, जिनके ईमेल पते कंपनी/ डिपॉजिटरी के साथ दर्ज किए गए हैं जो कि एमसीए के सामान्य ्रिपत्र संख्या 10/2021 दिनांकित 23 जून, 2021 जिसे परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 22/2020, दिनांकित 15 जून, 2020, परिपत्र संख्या 33/2020 दिनांकित 28 सितंबर, 2020 और परिपत्र संख्य 39/2020 दिनांकित 31 दिसंबर, 2020 के साथ पढ़ा जावे एवं SEBI परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांकित 15 जनवरी 2021 जिसे परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, दिनांकित 12 मई, 2020 के साथ पढ़ा जावे, के अनुसा हैं। ईजीएम के आयोजन वाली सूचना कंपनी की वेबसाइट www.somindia.com, BSE & NSE की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एन एस डी एल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार एवं कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित एवं SEBI (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची) विनियम 2015 के नियमन 44 के अनुसार सदस्यों को एन एस डी एल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई–वोटिंग) का उपयोग करके ईजीएम को बुलाने वाले नोटिस में सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के मतदान का अधिकार उनके द्वारा कंपनी के पेड-अप इक्विटी शेयर पिटल में 12 अगस्त, 2022 (शुक्रवार) (कट-ऑफ डेट) के अनुसार रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात

दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि (मंगलवार) 16 अगस्त, 2022 (IST सुबह 9.00 बजे) से शुरू और (गुरुवार) 18 अगस्त, 2022 (IST शाम 5.00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को उसके बाद एन एस डी एल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो ईजीएम में उपस्थित रहेंगे और दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाल पाए हैं, और अन्यथा ऐसा करने में उन्हें बाध्य नहीं किया गया, वो ईजीएम के दौरान मतदान करने व लिए पात्र होंगे। वे सदस्य जिन्होंने ईजीएम से पहले दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डाले हैं, वे भी ईजीएम में उपस्थित हो/ भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। वे सदस्य जिनके ई–मेल आईडी ई–वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ

पंजीकृत नहीं हैं और उनकी ई–मेल आईडी पंजीकृत करने के लिए ईजीएम सचना में बताए गए आवश्या विवरण और दस्तावेज कंपनी की ई–मेल आईडी compliance@somindia.com पर या आरटीए ई–मेल आईडी info@masserv.com पर भेजने का अनुरोध किया जाता है।

ईजीएम सूचना में संदर्भित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं और ईजीएम के समय भी लवलका होंगे। श्री नीलेश जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (ICS) सदस्यता संख्या FCS 6436) को निष्पक्ष और पारदर्शी

तरीके से 'दूरस्थ ई-मतदान' प्रक्रिया की जांच करने और ईजीएम पर मतदान करने के लिए स्क्रूटिनीज़र के रूप में नियक्त किया गया है। ध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद स्क्रूटिनीज़

की रिपोर्ट के साथ घोषित किए गए परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.somindia.com और एन एस डी एल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर रखा जाएगा। कोर्ड भी व्यक्ति. जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, और कंपनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी के सदस्य बन जाते हैं, और कट-ऑफ तारीख पर शेयरों को होल्ड करते हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालॉंकि, यदि

वह पहलें से ही दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए एन एस डी एल के साथ पंजीकृत है, वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) और ई-वोटिंग मैनुअल https://www.evoting.nsdl.com/ पर उपलब्ध सहायता अनुभाग या टोल फ्री नंबर

1800280533 पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल: evoting@nsdl.co.in या पूर्वोक्त टोल-फ्री नंबर। सोम डिस्टिलरीज एण्ड ब्रेवरीज लिमिटेड

स्थान: भोपाल दिनांक: 26.07.2022 नकुल सेठी निदेशव

पीरामल कैपीटल एंड हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्वन डीएसएफरल) कारपोरेट कार्यात्मकः यूनिट नं. ६०१, ६वीं तल, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्त्या कारपोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एकोपिस मार्ग, कुर्ता (पश्चिम), मुन्नई -400070

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावती, 2002 के नियम 3 के साथ परि धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर पीरामल कैपीटल एंड हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पर्ववर्ती दीवान हाऊसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. (डीएचएफएल)) वारा 15(12) थ रास्त्र प्रस्ति आयो आयोग थ सामार थयाव ए ६ हाळाला आहेन्स तिमान्य सुवना सामा हालाला आहोन कामराना त अधोहस्तासरी प्रतिकृत अधिकारी ने यहाँ नीचे उल्लिखित कर्जवार(ओ)/जमानती(ओ) को माग सुवना(एँ) जारी को जिसमे सूचना में उल्लिखित राशि को उत्तर सूचना प्रति की तारीय से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा। कर्जवार द्वारा काम्या राशि का गुगतान करने में असफल रहने पर एतद्वारा कर्जवार(ओ)/जमानती(ओ) और सर्व सामान्य कं सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का नीचे उल्लिखित तारीख को कब्जा ले लिया है। प्रत्यामृत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उपन्धार (a) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। प्रत्यामृत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (b) के प्रावधाने में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्व जन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन यहाँ नीचे उल्लिखित राशियों और इस पर ब्याज के लिए पीसीएचएफएल के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार(ओँ) / जमानती(ओँ) के नाम	प्रत्यामूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	माँग सूचना की तारीख और राशि	कब्जे की तारीख
	निम्न संपत्ति के समस्त भाग व खंड:- फ्लैट नं. सी-27, प्रथम तल, सनसिटी कालोनी, हैदरपुर विरान कालोनी, गुरूग्राम गुडगाँव गुडगाँव, हरियाणा-122011	एल.सी. नं. 00004369 दिनांकः 30.06.2021 रु. 10086046/-	7/21/2022
स्थानः बैंगलोर, दिनांकः 27.07.2022	(प्राधिकृत अधिकारी), हिते पीरामल कैपीर	ल एंड हाऊसिंग फाइ	नेंस लिमिटेड



तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड शाहदरा शाखा, 26/22, गली नं. 12, 60 फीट मेन रोड़, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 मो. 9958599033; 011-22304533 ई-मेलः delhi_shahda

(नियम 8(1)) कब्जा नोटिस - (अचल सम्पत्ति हेतु)

@ Piramal

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित क प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिमूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रवत्त शक्तिय का प्रयोग करते हुए दिनांक 09.05.2022 को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उद्यारकर्ताः 1. मैसर्स प्रज्वल ज्योति होम अप्लायंसेज, 29/22, गली नं. 12, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032 2. श्री राजेश गर्ग, 4/2931, गली नं. 4, श्री राम कॉलोनी, शालीमार पार्क, भोलानाथ नगर, दिल्ली 110032, 3. श्री विनोद कुमार अरोड़ा, 4/2928, गली नं. 4. श्री राम कॉलोनी, शालीमार पार्क, भोलानाथ नगर, दिल्ली- 110032 को हमारी शाहदरा शाखा द्वारा मांग सूचना में वर्णित ऋण की राशि रु. 39,19,499.42 (रु. उनतालीस लाख उन्नीस हजार चार सौ निन्यान्वे और पैसे ब्यालीस मात्र) 30. 04.2022 तक साथ ही आगे के ब्याज सहित नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21.07.2022 को निम्नलिखित सम्पत्ति क

सुरक्षित परिसम्पत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के

उपघारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रित किया जाता है। विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन तिमलनाड मर्केटाइल बैंक लिमिटेड को देय धनराशि रू. 40,16,119.42 (रूपये चालीस लाख सोलह हजार एक सौ उन्नीस और पैसे ब्यालीस मात्र) दिनांक 30.06.2022 तक और आगे के ब्याज और शुल्क के साथ देय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

साम्यिक बधंक निर्मित सम्पत्ति नं. IV/2928 शामिल खसरा नं. 622 मिन में, क्षेत्रफल 40 वर्ग गज (33.444 वर्ग मी.) गली नं. 4, श्री राम कॉलोनी, भोला नाथ नगर, गाँव चन्द्रावली बनाम शाहदरा दिल्ली-110032 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री विनोद कुमार अरोड़ा के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में रोड़, पूरब में - गली, दक्षिण में - शेष हिस्सा, जोकि श्री सुशील कुमार के नाम पर है।

Sr. No.

क्रेडित घटा कर यदि कोई हो

प्राधिकृत अधिका

ISIN

प्राधिकृत अधिकारी, तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक लि. दिनांक : 21.07.2022, स्थान : शाहदरा

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना

(अचल संपत्ति हेत)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकार्र होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार नितिन चोपड़ा मालिक एन सी ऑटो उद्योग, सुर्रिवर कुमार चोपड़ा और पूजा को 17.12.2021 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHELAJ00419178 की राशि रू. 2,17,059.85 (रूपये दो लाख सन्नह हजार उनसठ और पचासी पैसे मान्र) और 06.12.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन

करते हुए अभियाचना सूचन ाजारी की थी । धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्द्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.07.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 2,17,059.85 (रूपये दो लाख सत्रह हजार उनसठ और पचासी पैसे मात्र) 06.12.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

कुंडली में टीडीआई लेकग्रोव सिटी में 'लेकसाइड हाइट्स' के टॉवर 7 में चौथी मंजिल पर फ्लैट बियरिंग नंबर टी7/0404 का सुपर क्षेत्र माप 108.69 चौरस मीटर, सोनीपत-131028, हरियाणा.

दिनांक : 23.07.2022 प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : सोनीपत

IndusInd Bank (🖈)

एफआरआर ग्रुप, 11वीं मंजिल, हयात रीजेंसी कॉम्पलेक्स. न्यू टॉवर, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत सूचना

तद्वारा उन कर्जदार/बंधककर्ताओं/जमानतियों को सचना दी जाती है जिन्होंने बैंक से ग्रहण किये गये मलधन एवं ब्याज के पनर्भगतान में चक की है और जिनवे खाते नॉन-पर्फामिंग आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं। वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पते पर सम्पूर्ण बकाये का पुनर्भुगता करने को कहते हुए सूचना जारी की गयी थी किन्तु कुछ सूचना(एँ) अन-सर्ब्ड वापस कर दी गयीं अतः इसके विषय में उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

द्रज्ञ.	कजदार⁄सह–कजदार∕बंधककता	एनपाए का	13(2) का	बकाया राशि∕दय तिथि
सं.		तिथि	तिथि	
1.	1. बीर फामां (कर्जदार) सीसी-2, दूनी हाउस, फिल्म कॉलोनी, एस.एम.एस हाईबे, जयपुर, राजस्थान-302003, 2. श्री बीरेंद्र कुमार साहनी (पार्टनर/गारंटर) 18-19 पार्श्वनाथ, कॉलोनी, डीसीएम अजमेर रोड जयपुर, राजस्थान-302006, 3. श्री देव साहनी (पार्टनर/गारंटर) 18-19 पार्श्वनाथ, कॉलोनी, डीसीएम अजमेर रोड जयपुर, राजस्थान- 302006, 4. श्री दिनेश साहनी (पार्टनर/गारंटर) 18-19 पार्श्वनाथ, कॉलोनी, डीसीएम अजमेर रोड जयपुर, राजस्थान-302006, 5. सुश्री सरोज साहनी (गारंटर) 18-19 पार्श्वनाथ, कॉलोनी, डीसीएम अजमेर रोड जयपुर, राजस्थान-302006, 6. श्री संजय बग्गा (गारंटर/बंधककर्ता) 84/ए, रोशनी नगर, जगतपुरा, जयपुर-302025, 7. श्रीमती दीपिका साहनी (गारंटर) 18-19 पार्श्वनाथ, कॉलोनी, डीसीएम अजमेर रोड। जयपुर, राजस्थान-302006		15.06.2022	31.03.2022 तक र. 2,47,13,269.91 (रुपये दो करोड़ सैंतालीस लाख तेरह हजार दो सी उनहत्तर एवं इक्यानवे पैसे मात्र) तथा 01.04.2022 से भावी व्याज एवं प्रयोज्य दर पर दण्डात्मक व्याज तथा कोई अन् लागत, प्रभार, उस पर हुआ व्यय, जमा यदि कोई हो, को घटाकर

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण : कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधक, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल के स्टॉक, प्रगति प कार्य, तैयार माल, प्राप्य, बही ऋण और अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं।

सम्पार्श्विक : नीचे दिए गए विवरण में अचल संपत्तियों के स्वामी ('बंधककर्ता') द्वारा बैंक को स्वामित्व विलेख जमा करने के माध्यम से इक्विटेबल बंधक

अचल सम्पातया का विवरण	स्वामा/बधककता
प्लॉट नं. 84-ए, रोहिणी नगर, जगतपुरा, जयपुर, माप 150 वर्ग गज	श्री संजय बग्गा
उपरोक्त नामित कर्जदार और उनके गारंटर और बंधककर्ताओं से इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर ब	काया राशि का भुगतान करने
के लिए कहा जाता है, जिसमें विफल होने पर सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत 60 दिनों	की समाप्ति के बाद आगे की

कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड तिथि 26.07.2022 स्थान : जयपर (राजस्थान) अधिकत प्राधिका

IndusInd Bank 🖼

एफआरआर विभाग, 1 1वां तल, हयात रिजेंसी कॉम्पलेक्स, न्यू टॉवर, बिकाजी कामा प्लेस,नई दिल्ली 110066

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13(2) के तहत सूचना

एतद् द्वारा उधारकर्ता/बंधककर्ताऑं/ गारंटरों को सूचित किया जाता है, जिन्होंने बैंक से उनके द्वारा प्राप्त मूलधन और ऋण सुविधा के ब्याज वे पुनर्गुगतान में चूक की है और उनके ऋण खातों को गैर–निष्पादित परिसंपतियों(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वित्तीय परिसंपतियों वे पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत उक्त उल्लेखि उचारकर्ताओं के आँतेम ज्ञात पतों पर सूचना जारी कर संपूर्ण बकाया चुकाने की मांग की थी। डालांकि, उचारकर्ताओं ने उक्त मांग सूचनाओं को स्वीक करने से इनकार कर दिया है और इसलिए इस प्रकाशन के माध्यम से हमारे द्वारा सेवा की जा रही है।

I	क्र. सं.		एनपीए की दिनांक	13(2) की दिनांक	वकावा सारा/दय विनाक
		1. ओपलोस मेडिकेयर फार्मासुटिकल प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) प्लाट सं. —93, प्रथम तल, ब्लॉक-सी, सेक्टर-2, बवाना, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली-110039, 2. श्री वैमव वोहरा (निदेशक/गारंटर) 43 बी, आलोक नगर, गरिहामदोरिया, आगरा, उत्तर प्रदेश—282010, 3. श्री अरपित वोहरा (निदेशक/गारंटर) सी—203, पुजारी अर्पाटमेंट, शिव विहार, पश्चिम विहार, विल्ली-110087, 4. स्व. श्री सुभाष चन्द्र वोहरा (गारंटर/बंघककर्ता) के कानूनी उत्तराधिकारी, 43 बी, आलोक नगर, गरिहामदोरिया, आगरा, उत्तरप्रदेश—282010, 5. श्री नीकिता अग्रवाल वोहरा, (गारंटर) सी—203, पुजारी अपार्टमेंट, शिव विहार, पश्चिम विहार, दिल्ली—110087		15.06.2022	स. 2,41,47,355/— (रुपये दौ करोड़ इत्तालीस लाख सँतालीस हजार तीन सौ पचपन मात्र) दिनांक 31.03.2022 को और अन्य ब्याज और 01.04.2022 से लागू ब्याज की दर पर दण्डात्मक ब्याज और उस पर अर्जित, अन्य लागतो प्रमारो, व्ययों क्रेडित घटा कर यदि कोई हो

प्रत्यामत संपत्तियों का विवरण : विशेष रूप से वित्त पोषित अन्य बैंकों द्वारा कंपनी की चल अचल संपत्तियों पर पहला और अन्य शल्क वर्तमान और भविष्य दोनों अन्य परिसंपत्तियों को छोड़कर । संपार्श्विक: बँक को मालिक द्वारा शीर्षक विलेखों के जमा के माध्यम से न्यायसंगत बंधक (''बंधक'') अचल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है

अचल संपत्तियों का विवरण	मालिक/बंधककर्ता			
आवासीय प्लॉट सं. ४३, स्थित गड़ी मदौरिया, आलोक नगर, लोहा मण्डी वार्ड, तहसीत मीटर) और सीमांकन :—, पूर्व प्लॉट सं. बी—४४, पश्चिम : प्लॉट सं. बी—४२, उत्तर : स कॉलोनी				
2. 1. मैसर्सं बुड स्टेशन (उघारकर्ता) मालिक के माध्यम से-श्री जितेन्द्र दाढिया प्लॉट सं. खं. सं. 10/1, सीमेंट वॉल गली, स्वर्ण पार्क, मुण्डका, दिल्ली—110041, 2. श्री जितेन्द्र दाढिया (मालिक/गाएंटर), मकान सं. 3769, प्रथम तल, सेक्टर—9ए, बहादुरणढ़, हरियाणा—124507, 3. श्री सुनिता (बंधककर्ता/गारंटर) मकान सं. 3769, प्रथम तल, सेक्टर—9ए, बहादुरणढ़, हरियाणा—124507	8.03.2022		01.04.202 दण्डात्मक ब	3,568.55/— दिनांक 2 को और अन्य ब्याज और 22 से लागू ब्याज की दर पर याज और उस पर अर्जित, भारो, व्ययों क्रेडित घटा कर यदि कोई हो

प्रत्याभूत संपत्तियों का विवरण : कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों का हाइपोथिकेशन, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ, कच्चे माल के स्टॉक

प्रगात पर काय, तयार माल, प्राप्य, पुस्तक ऋण आर अन्य वतमान पारसपात्तया शाामल ह। संपारिवंक : बैंक को मालिक द्वारा शीर्षक विलेखों के जमा के माध्यम से न्यायसंगत बंधक ('' बंधक'') अचल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :					
अचल संपत्तियों का विवरण	मालिक/बंधककर्ता				
मकान सं. 2378/34, प्लॉट सं. 7, मापक क्षेत्र 173.5 वर्ग गज, स्थित किल्ला सं. 11/25 में, 12/21/1, 18/1/2, सुना रोड़, रोहतक	री श्रीमती सुनिता				

वीएपी आईटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) 503, 25.12.2021 15.06.2022 रू. 38,74,317.42/- (रुपये रसएसआर कॉर्पोरेट पॉर्क, 13/6, मथुरा रोड, एनएच 2 अड़तीस लाख चौहत्तर हजार तीन सौ . रीदाबाद—121003 सत्रह और बयालीस पैसे मात्र)दिनांक वीएपी आईटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट सं. 307, फेज-IV 31.05.2022 को और अन्य ब्याज गुरुग्राम, गुङ्गाव—122015, 2. प्रवीण कुमार पुत्र नानक चंद्र शर्मा (निदेशक/गारंटर) 202, ब्लॉक 2, आईपी कॉलोनी अपार्टमेंट सेक्टर 31, और 01.04.2022 से लागू ब्याज र्क दर पर दण्डात्मक ब्याज और उस पर फरीदाबाद—121003, 3. प्रिंस शर्मा (निदेशक/गारंटर) 202, ब्लॉक 2 आईपी कॉलोनी अर्पाटमें, सेक्टर 31, फरीदाबाद—121003 अर्जित अन्य लागतो प्रभारो व्ययों

प्रत्याभृत संपत्तियों का विवरण : कंपनी की संपूर्ण वर्तमान परिसंपत्तियों का हाइपोथिकेशन, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, कच्चे माल के स्टॉक प्रगति पर कार्य , तैयार माल, प्राप्य , पुस्तक ऋण और अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां शामिल हैं। **संपारिर्वक :** बैंक को मालिक द्वारा शीर्षक विलेखों के जमा के माध्यम से न्यायसंगत बंधक ('' बंधक'') अचल संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :

अचल संपत्तियों का विवरण	मालिक/बंधककर्ता
औद्योगिक संपत्ति स्थित प्लॉट सं. 307 पर, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गांव, मापक 420 वर्ग मीटर	वीएपी आईटी सर्विसेस प्रा.लि.
उपर्युक्त नामित उधारकर्ता और उनके गारंटरों और बंधककर्तओं से इस सना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर बकाय लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर सरफैसी अझिनियय, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत 60 दिनों कदम आठाए जाएंगे।	ा राशि का भूगतान करने के की समाप्ति के बाद आगे के
दिनांक : 26,07,2022	प्रति इंडसइंड बैंक लिमिटेड

स्थान : दिल्ली एनसीआर/उ.प्र. और हरियाणा

RBL BANK LTD. RBLBANK

प्रशासनिक कार्यालयः प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर–416001 शाखा कार्यालयः यूनिट 14–15, डीएलएफ कैपीटल प्वाइंट, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली–11000°

सरफासी अघिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस का प्रकाशन

ादद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोल्लिखित कर्जदार(ऑ) ∕ जमानती(ऑ) ∕ बंधककर्ता(ऑ) जिन्होंने बैंक से ली गईं उधारी ∕ ऋण सुविधाओं के मूलधन औ ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है और जिनके ऋण खाते अनर्जक आस्ति (एनपीए) वर्गीकृत किए गए हैं। विस्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठ और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पतों पर उनको नोटिस जारी किए गए।

क्र.	कर्जदार, सह–कर्जदार/जमानती/	ऋण खाता	संपत्तियों का विवरण / प्रवर्तन की जाने वाली	नोटिस की तारीख
सं.	बंधककर्ता के नाम और पते	सं. और ऋण राशि	प्रत्यामूत परिसंपत्ति का पता	देय राशि रु. में
2.	एफएम फ्रेश मार्ट (अपने प्रेंपराईटर/प्राधिकृत हस्ताक्षरी लवनीश क्वाजा के माध्यम से) 27/27बी, ज्वाला नगर, मेन रोड, शाहदरा, नई दिल्ली—110032 अन्य पताः संपत्ति नं. 7/526, गाँव चंद्रावली, ज्वाला नगर, मेन रोड, शाहदरा, नई दिल्ली—110032 अन्य पताः संपत्ति नं. 27/46-ए, गाँव चंद्रावली, ज्वाला नगर, मेन रोड, शाहदरा, नई दिल्ली—110032 अन्य पताः राप्टिन नं. 7/526, गाँव चंद्रावली, ज्वाला नगर, मेन रोड, शाहदरा, नई दिल्ली—10032 अन्य पताः 27/27—बी, ज्वाला नगर, मेन रोड, शाहदरा, नई दिल्ली—10032 अन्य पताः रापटिन नं. 7/526, गाँव चंद्रावली, ज्वाला नगर, मेन रोड, शाहदरा, नई दिल्ली—10032 अन्य पताः संपत्ति नं. 7/546-ए, गाँव चंद्रावली, ज्वाला नगर, मेन रोड, शाहदरा, नई दिल्ली—110032 अन्य पताः संपत्ति नं. 7/526, गाँव चंद्रावली, ज्वाला नगर, मेन रोड, शाहदरा, नई दिल्ली—110032 अन्य पताः संपत्ति नं. 7/546-ए, गाँव चंद्रावली, ज्वाला नगर, मेन रोड, शाहदरा, नई दिल्ली—110032	809002 502235	संपत्ति नं. 1: (बंधककर्ता— श्रीमती ऊषा पानी क्वात्रा) "गाँव एरिया चंद्रावली उर्फ शाहदरा, ज्वाला नगर की आबादी, इलाका शाहदरा, दिल्ली—110032 रिथत संपत्ति नं. 7/528 (पुराना नं. 27/5/3-ची/1), मूमि माप एरिया 58 वर्ग गज अंतिम मंजिल तक निर्माण अधिकार सहित, खसरा नं. 724 मिन में से, और सीमाएँ निम्नदर— उत्तरः गली, दक्षिणः अन्य के मकान, पूर्वः गली, पश्चिमः मकान नं. 7/525 संपत्ति नं. 2: (बंधककर्ता— श्री तवनीश बवात्रा) "गाँव चंद्रावली उर्फ शाहदरा, मेन रोड की आवादी खाला नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली—110032 रिथत संपत्ति नं. 27/27—बी का भाग, प्लॉट नं. 150 के भाग पर निर्मित, भूमि एरिया माप 49 वर्ग गज (२४.5 वर्ग गज + २४.5 वर्ग गज) इस पर निर्मित समस्त संरचना सहित और अंतिम मंजिल का निर्माण अधिकार सहित, खसरा नं. 742 और 654 में से और अब नया नंबर 44 और 45 का 2594/742, खाता नं, 514/545 और सीमाएँ निम्नदर्— उत्तरः वैंडरों की संपत्ति नं. 27/27—बी का भाग, दक्षिणः मेन रोड, पूर्वः अन्य की संपत्ति, पश्चिमः श्रीमती लक्ष्मी देवी की संपत्ति नं. 27/27—बी का भाग	22.07.2022 ▼.
ला	पर्यक्त कर्जटारों और / या उनके जमानती(ओं) / बंधककर्ता(ओं) ('	जहाँ भी लाग ह	- हो) को एतटदारा बकाया राशि का इस नोटिस प्रकाश	ान की तारीख से 60

दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा सरफासी अधिनयम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उक्त 60 दिनों की अवधि समाप्ति पर आगे के कटम उठाये जायेंगे।

कृपया नोट करें कि विधि के तहत उक्त ऋण / सुविधा के कर्जदार(ओं) / जमानती(ओं) / बंधककर्ता(ओं) के विरुद्ध यह प्रकाशन बैंक के पास उपलब्ध ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के किया गया है। साथ ही आप उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत हमारी लिखित सहमति के बिना बिक्री / पट्टे या अन्य किसी भी तरीके से उपर्युक्त प्रत्याभूत परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से निषिद्ध होंगे।

प्राधिकृत अधिकारी स्थान नर्स टिल्ली आरबीएल बैंक लि. दिनांक: 27 07 2022

Public Notice

This notice is hereby given to the public at large inviting objections with regards to transmission of the securities held in Demat account maintained with HDFC Bank of Late Mr. N V. Narasimha, in favour of their legal heirs, Ms Nanduri Sharada. The details of the holding of securities in question are

Sr. No	DP ID / Client ID / BO ID	1st holder	2nd Holder
1	IN/	Mr. N.V. Narasimha	
2	IN/		
3	IN/		NA
4	IN/		NA
erson having any objection	to the transmission of the securiti	es in the above-mentioned accoun	ts are hereby required to file the

Any person having any objection to the transmission of the securities in the above-mentioned accounts are nereby required to the same in writing directly to the Branch Manager, HDFC Bank Ltd. (branch address) 209/214, Kailash Building, 26, K.G.Marg, New Delhi same in writing directly to the Branch Manager, HDFC Bank Ltd. (branch address) 209/214, Kailash Building, 26, K.G.Marg, New Delhi -110001, within 30 days from the publication of this Notice with copies of proofs to support the objection, otherwise the securities will be transferred to the abovementioned legal heirs without reference to any such objection and the same will be considered as waived or

Company Name

Shares

Sr. No. ISIN

Company Name

ı	31. 110.	IOIN	Company Name	SI. NO.		Company Name
	1	INE 423A01024	Adani Enterprises Limited-Equity Share	23	INF 174K01336	Kotak Mahindra Asset Management Co
			of Rs. 1/- Each after Sub-division			Ltd-kotak Select Focus Fund-growth
	2	INE 852O01025	Aptus Value Housing Finance India			Option
			Limited# New Eqity shares with Face	24	INE 498L01015	L&T Finance Holdings Limited Equity
			value Rs. 2/- after sub division			Shares
	3	INF 846K01164	Axis AMC LTD # Axis ME-Axis Bluechip	25	INF 917K01254	L&T Investment Management Ltd-I&t
			Fund-Regular Growth			Midcap Fund-comulative Option
	4	INE 028A01039	Bank of Baroda # New Eq SH with FV	26	INE 115A01026	LIC Housing Finance Ltd-new Equity
			Rs. 2/- After Sub-Div			Shares Of Rs 2/- After Sub Division
	5	INE 243D01012	BF Utilities Limited-Equity Shares	27	INF 769K01DE6	Mirae Asset Global Invst(i) Pvt Ltd# Mirae
	6	INE 736A01011	Central Depository Services(India)			Asset Mf-mirae Asset Hybrid Equity Fund
			Limited Equity Shares			Regular-growth
	7	INE 503A01015	DCB Bank Limited # Equity Shares	28	INF 769K01101	Mirae Asset Global Invst(ind) Pvt Ltd#
	8	INE 124G01033	Delta Corp Limited-New Equity Shares			Mirae Mf-mirae Asset Emerging Bluechip
			of Rs.1/- After Split		0 0	Fund Reg Pin-growth
	9		GIC Housing Finance Limited Equity Shares	29	INF 247L01700	Motifal Oswal Amc Ltd# Motifal Oswal
	10	INE 615101010	Globus Spirits Limited Equity Shares			Mf-motilal Oswal Nasdaq 100 Fund Of
	11	INE 776C01039	GMR Infrastruture Limited-new Equity		INIEGOAIZOALING	Fund Regular-growth
		11.00000077	Shares Of Rs. 1/- After Split	30	INF204K01HY3	Nippon Life India Am Ltd # Nippon India
	12	IN 00200377	Govt Of India # 2.5% Sgb 2020-21			Mf-nippon India Small Cap Fund-growth Option
			Series Ix 2029-loan Code 29848-red Dt 05.01.2029		INE 932A01024	Pennar Industries Limited-new Equity
		INIT 000000040F		31	INE 932A01024	Shares Of Rs 5/- After Scheme Of
	13	INE 0020200195				Arrangment
			Series Vi 2028-loan Code 29374-red Dt 08.09.2028		INE 074A01025	Praj Industies Limited Equity Shares Of
		INIT 00000400F0		32	INE 074A01025	Rs 2/- After Split
	14	INE 0020210053	2029-loan Code 30405-red Dt 25.05.2029		INE 160A01022	Punjab National Bank # New Eq Sh With
		INE 179K01814	HDFC Amc Ltd # Hdfc Mf-hdfc Balanced	33	INE TOURUTUZZ	Fv Rs 2/- After Sub-division
	15	INE 179KU1014	Advantage-fund-regular-idcw Payout		INIE 000 A04049	Reliance Industries Limited Equity Shares
		INE 127D01025	HDFC Asset Management Company	34		SBI Funds Mgnt Ltd #sbi Mt-sbi Exchange
	16	INC 127001025	Limited 3new Equity Shares Fv Rs 5/-	35	INF ZUURA IODO	Trades Fund Gold
			After Subdivision		INE 839M01018	Schneider Electric Infrastructure Limited-
		INE 040A01034	HDFC Bank Limited # New Quity Shares	36	IIAE 039M0 1010	Equity Shares
	17	INE 040A01034	With Face Vlue Re 1/- After Subdivision		INE 062A01020	State Bank Of India # New Equity Shares
		INE 795G01014	HDFC Life Insurance Company Limited #	37	INC 002A01020	Of Fv Re. 1/- After Subdivision
	18	1142 755501014	Equity Shares		INE 903JAIEX7	Sundaram Amc Ltd# Sundaram Mf
		INE 001A01036	Housing Development Finance	38	1142 3000711271	Sundaram Services Fund Regular-growth
	19	INC 00 1A0 1030	Corporation Limited New Equity Shares		INF277K01451	Tata Asset Management Ltd Tata Equity
			Of Rs.2/- After Sub Division	39	1141 27710 1401	Pe Fund Growth Option
		INF 109K01BU5	C C Pru Amc Ltd # Icici Pru Mf-icici Pru		INE 033L07GM9	Tata Capital Hsg Fin Ltd#8.10% Sec Ngr
	20	103101000	Banking And Financial Services Fund	40	1112 000201 01110	Snr Tax N Cum Rtd Red Ncd Sr 1 Trnch
			Regular Plan-growth			l Pi-rd 14-01-2023
		INF 109K01BL4	ICICI Pru Amc Ltd3icici Purd Mf- Icici Prud		INE 285K01026	Techno Electric & Engineering Company
	21	100110101	Bluechip Fund-growth	41	2001101020	Limited # New Equity Shares Of Rs. 2/-
		INE 303R01014	Kalyan Jewellers India Limited # Equity			After Sub Division
	22		Choron	I		

ANAND RATHI

आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड एक्सप्रेस जोन, ए विंग, 10वीं मॉजल, बेस्टर्न एक्सप्रेस हाईबे, डायगोनेली के सामने ओबेरॉय मॉल, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई 400063

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के संपठित (नियम 8 (1) के अनुसार ादाने पृत्य हित्त हित्त हु प्रदिद्ध में अपने हित्त प्रस्ति है कि स्वाप्त के अंतिम्युस्ति क्या और पृत्यि हित्त है हित्त के अधिकृत अधिकारी, वित्ती परिस्ति को अधिकृति के स्वाप्त के अधिकृति है कि अधिक के अधिकृत अधिकारी है कि अधिक के अधिकृत के अधिकृ

चण वाणात्रानार चाडिय के तात पारेपालिय, प्रितिमृतिहित प्रकर्तन स्थित, 2002 कियर कराने में के किशक्रित है। में कराने आपत्करों और पारेटर /व्यों और अध्य जनता को चूतकृषण आगात किया जात है कि से सेनीतथों /प्रतिपृत्त संपतियों तिर्वाधितपृत्त संपत्तियों के आप कोई भी लेक्से आनंद राजे कांबल पातृत्वेद लिमिटेड के प्रभात के आयोग होगा एआ पीएमट हारा यूमला ऑस्टर होगीबीतरीत कक सगर और तुष्क और अन्यदेव राति? (व्यविकोई है) और साथ सीक्टरसक व्यावद राज आगे और पविव्यक्त कांवक से साथ बढ़कार रिते होगीब कर सेनी में देविका मुस्तिव संपत्तियों को मूजने के सिए अलब्य समय के संबंध में अधिनयम की बारा 13 की क्याराह 8) के प्रवचानों के लिय एकरों का व्यान आकर्षित किया जाति है ऋणी का नाम एवं पता:- मैसर्स कैंडल लाइट हॉस्पिटैलिटी प्रा. लिमिटेड

हा नाम एवं पता: - 1 श्रीमान हरप्रीत सिंह, 2.श्रीमती चरणजीत कौर, 3. श्रीमान इकबाल सिंह ता:-के-502, महिंद्राऑरा, सेक्टर 110ए, गुरुग्राम, हरियाणा - 122017

मांग सूचना की दिनांक 05 अप्रेल 2021 Principal Outstandin EMI Amount Pending ऋण खाता संख्य ARGFL/SME-LAP /DEL/1195 हिमांड नोटिस के अनुसार देव राशि आगे लागू ब्याज के साथ

मांग सूचना के अन्तर्गत बकवा राशि:-रु. 52,12,638/- (रुपये बावन लाख बारह हजार छह सौ अड़तीस रुपये मात्र)

Interest on termination
Over Due Interest
EMI Bounce & Other Charges
Additional Interest
Notice Charges
Total outstanding eclosure Charges @ 4% + GST कब्जा सूचना की दिनांक:-26 जूलाई 2022

5,14,596 43,633 38,582 8,260 86,307 2,200 50,08,952 2,03,686 52,12,538 अनुसूची - | सुरक्षित संपत्ति का विवरण :-1) बेसमेंट एवं भृतल भूमि के प्लॉट पर निर्मित जो हुडा नं.263/प्लॉट नं. ्राचुना निर्मालया सामान्या इ.च. – 53 जिसस्का क्षेत्रफल लगभग231 वर्गमीटर जो गांव हैस्पुर विरेन, सेक्टर – 54, गुड़गांव में स्थित है। जो अबस सिटी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हरियाणा के नाम से जानी जाने वाली कॉलोनी का हिस्सा है। जिसकी सीमा:- पूर्व: हुडा नंबर 258 / प्लॉट नंबर डी-68 पश्चिमः रोड,

दक्षिण: हुडा नंबर 264/प्लॉट नंबर डी-54 उत्तरः हुडा नंबर 262/प्लॉट नंबर डी-52 दिनांकः : 26 जूलाई 2022 स्थान:दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी (आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड)

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार बलर्विदर सिंह हंसपाल मालिक, हरमीत कौर और इंद्रप्रीत सिंह को 23.02.2022 की सचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLDMT00371858 की राशि रू. 41.23.301.02 (रूपये इकतालीस लाख तेईस हजार तीन सौ एक और दो पैसे मात्र) और 10.02.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी ।

धनराशि चकता करने में कर्जवारों के असफल रहने पर एतदब्रारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.07.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 41,23,301.02 (रूपये) इकतालीस लाख तेईस हजार तीन सौ एक और दो पैसे मात्र) 10.02.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

आवासीय यूनिट नंबर टी -83, हुप्लेक्स टस्कन फ्लोर्स, क्षेत्र माप 1434 चौ. फीट, टीडीआई टस्कन सिटी में स्थित, कुंडली में स्थित, सोनीपत-131028, हरियाणा.

दिनांक : 23 07 2022 प्राधिकत अधिकारी स्थान : सोनीपत इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

> परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार विपन शर्मा और शैला शर्मा को 18.02.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं HHLDMT00426729 की राशि रू. 38.29.698.37 (रूपये अडतीस लाख उनतीस हजार छह सौ अठानवे और सैंतीस पैसे मात्र) और 10.02.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदुद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 23.07.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान केया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 38.29.698.37 (रूपये अड़तीस लाख उनती हजार छह सौ अठानवे और सैंतीस पैसे मात्र) 10.02.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

लेक ग्रोव में "लेक साइड हाइट्स" से पहचाने जाने वाले ग्रोजेक्ट के टावर टी -1 में तेरहवीं मंजिल पर यूनिट नं. 1302, सुपर क्षेत्र माप 2350 चौ.फीट, कुंडली, सोनीपत -131028, हरियाणा और निम्ननुसा

पूर्व : टाइटल हीड के उल्लेखानुसार पश्चिम : टाइटल डीड के उल्लेखानुसार उत्तर : टाइटल डीड के उल्लेखानुसार दक्षिण : टाइटल डीड के उल्लेखानुसार

दिनांक : **23.07.2022** प्राधिकृत अधिकारी इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : सोनीपत

	अभिकृति क	फाम जा ो अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
	भारतीय ऋणशोधनक्षमता व दिवालियाप	न बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए ऋणशोधनक्षमता 2016, के विनियम 36ए(1) के अंतर्गत
	प्रस्ताव प्राक्रया) विानयम १	2018, के बिनयम 36ए(1) के अंतगत ' विवरण
1	निगमित ऋणी का नाम	ावपरण कि पैन फ्रेंगनेंस प्राइवेट लिमिटेड
2.	निगमित ऋणी के समावेश की तिथि	15/06/2012
3.		रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिल्ली
4.	निगमित पहचान संख्या/निगमित ऋणी की देयता पहचान संख्या	U16009DL2012PTC237514
5.	निगमित ऋणी के पंजीकृत कार्यालय व मुख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता	286, मेन रोड, मंडावली, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली 110092
6.	निगमित ऋणी के संबंध में ऋणशोधन क्षमता की शुरुआत की तिथि	माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के आदेशानुसार 13.05.2022
7.	अभिक्तचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण की तिथि	27 जुलाई 2022
8.	कोड की धारा 25(2)(एच) के तहत प्रश्ताव आवेदकों के लिए योग्यता निम्न पर उपलब्ध है:	वे आवेदक जो आईबीसी की धारा 29ए के तहत अयोग्य नहीं है, पात्र हैं।
9.	धारा 29ए के तहत लागू अयोग्यता के मानक निम्न पर उपलब्ध है:	https://www.stresscredit.com/downloads/
10.	अभिक्तचि की अभिव्यक्ति के लिए अंतिम तिथि	11/08/2022
11.	सूची के जारी होने की तिथि	20/08/2022
	प्रावधानिक सूची के विरोध जमा करने की अंतिम तिथि	25/08/2022
	होने की तिथि	04/09/2022
14.	संमावित प्रस्ताव आवेदकों को प्रस्ताव योजनाओं के लिए जानकारी मेमोरेंडम, मूल्यांकन मैट्रिक्स जारी करने व अनुरोध की अंतिम तिथ्यि	25/08/2022
15.	प्रस्ताव योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स जानकारी मेमोरेंडम और आगे जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त करने का तरीका	गैर-प्रकटीकरण अनुबंध / अंडरटेकिंग निष्पादित करने के बाद बिंदु नं. 13 के अनुसार संमायित प्रस्ताव आवेदक को shashibbd@gmail.com पर ई-मेल कर इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं।
16.	प्रस्ताव योजनाओं के जमा करने की अंतिम तिथि	26/09/2022
17.	करने का तरीका	shashibpd@gmail.com को ई— मेल व बिंदु नं. 21 में वर्णित पते पर मुहरबंद लिफाफे में हॉर्ड कॉपी
18.	योजनाओं के जमा करने की अनुमानित तिथि	10.10.2022 (सीओसी व एए अनुमोदन का विषय)
	प्रस्ताव प्रोफेशनल का नाम व पंजीकरण संख्या	शशि भूषण प्रसाद IBBI/IPA-002/IP-N00676/2018-2019/12114
20.	बोर्ड के साथ पंजीकृत अनुसार प्रस्ताव प्रोफेशनल का नाम, पता और ई—मेल	शशि भूषण प्रसाद पता : ई—43, एलजीएफ पंचशील पार्क, नई दिल्ली—110017 ई—मेल : shashibpd@gmail.com
21.	प्रस्ताव प्रोफेशनल के साथ संचार के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला पता और ई—मेल	शशि भूषण प्रसाद पताः ई—43, एलजीएफ पंचशील पार्क, नई दिल्ली—110017 ई—मेल : shashibpd@gmail.com
	अन्य विवरण पर या के पास उपलब्ध है	shashibpd@gmail.com को ई—मेल भेजकर प्राप्त किए जा सकते हैं ।
23.	फॉर्म जी के प्रकाशन की तिथि	27/07/2022

दिनांक : 27.07.2022

स्थान : नई दिल्ली

शशि भूषण प्रसाद पंजी नं. : IBBI/IPA-002/IP-N00676/2018-2019/12114 ई—43, एलजीएफ पंचशील पार्क, नई दिल्ली—110017 के पैन फ्रेंगनेंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए

FEDBANK FINANCIAL SERVICES LTD.

Having corporate office at Kanakia Wall Street, A-Wing, 5th Floor, Unit No.501, 502, 511, 512 Andheri - Kurla Road, Chakala, Andheri

East, Mumbai, Maharshtra - 400093

Demand Notice under Section 13(2) of the SARFEASI Act, 2002

The below mentioned Borrower and Co-borrower (collectively referred to as "Borrowers") mortgaged their immovable property (securities) to Fedbank Financial Services Limited (hereinafter referred to as "Fedfina") to avail a loan. The said loan is classified a: non-performing asset on 05/08/2021 because you have failed to repay that amount. In this connection Fedfina had issued a Demand Notice on 08/11/2021 under Section 13 (2) of the Security and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 to the Borrowers. The details are published here as an alternative service under Section 13 (2) and Rule 3 (1) o the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. You are requested to repay the amount mentioned in the Demand Notice and the accompanying interest within 60 days of the publication of this notice. In case of failure to do so, the signatory shall take such appropriate action under section 13 (4) and 14 of the Action the said property to safe guard the interest of the Fedfina. Details of loan number, Borrowers, demand notice sent under section 13 (2), amount demanded and details of immovable propert are given below

LAN No	Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor Names	Demand Notice Date	Amount
FEDINOSTL0485434	1. Banshi Chhotalal Soni (Borrower & Mortgagor) 2. Mr. Rakhee Soni (Co-Borrower) 3. Mr. Harish Chotalal Soni (Co-Borrower & Mortgagor) Also at – 30, Juni Indore, Kasera Bakhal Khajuri Bajar, Indore - 4. Mr. Ghanshyam Chotalal Soni (Co-Borrower & Mortgagor) Also at – Flat no 101, Abhishek Tower, 22-23, Usha Nagar Ext. Main Road Indore - 450002 1 to 4 are residing at: Add-Flat No 403, 4th Floor, Maruthi Appartment, 15 Teli Bakhal, Bada Ganpati, Indore- 452002	08/11/2021	Rs 26,36,295/-

(Particulars of the immovable property document deposited to FFSL)

The said property Flat No. 403, 4th Floor of Maruti Apartment constructed on Mu. House No. 15 (Old No. 98, 105) situate at Kumha Iohalla, (Kadabeen mohalla, Prajapat Mohalla) Indore M.P. super built up area 651 Sq ft. own by 1. Shri Banshilal s/o Shri Chotela Sonî 2. Shrî Ghanshyam s/o Shrî Chotelaljî Sonî 3. Shrî Harish s/o Shrî Chotelaljî Sonî

By South:- House of Shri Ratanlaji By North:- Common Passage The said Borrowers are prohibited under Section 13 (13) from transferring the asset/property, whether by lease, sale or otherwisi without the prior written consent of Fedfina. Any person contravenes the provisions the said act shall be liable for punishment

DATE: 27/07/2022 AUTHORISED OFFICER Fedbank Financial Services Ltd PLACE: INDORE

- DB FINANCIAL SERVICES

specified in the said Act.

HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED REGISTERED OFFICE: Radhika, 2nd Floor, Law Garden Road, Navrangpura, Ah

Gujarat, Pin Code- 380009 Branch Office: House No.192-193, Veetara Pamecha Complex, Second Floor, Ward No.11, Mayapura Road, Near Maharana Pratap Bus Stand, Mandsaur – 458001, Madhya Pradesh

Branch Office — First Floor, Navgrahe Parishar, Amrawati Road, Rastipura Colony, Opp. Tapti Retreat, Burhanpur — 450331 POSSESSION NOTICE

Whereas, The Authorized Officer of HDB Financial Services Limited, Under The Securitization And Reconstruction Of Financia Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) And In Exercise of Powers Conferred Under Section 13(12) Read With Rules 3 of The Security Interest (enforcement) Rules, 2002 Issued Demand Notice To The Borrower/s As Detaile Hereunder, Calling Upon The Respective Borrowers To Repay The Amount Mentioned In The Said Notice With All Costs, Charge And Expenses Till Actual Date of Payment Within 60 Days From The Date of Receipt of The Same. The Said Borrowers/ Co Borrowers Having Failed To Repay The Amount, Notice is Hereby Given To The Borrowers/ Co Borrowers And The Public II General That The Undersigned in Exercise of Powers Conferred On Him Under Section 13(4) of The Said Act R/w Rule 8 of The Said Rules Has Taken Symbolic Possession of The Property Described Hereunder of The Said Act On The Date Mentioned Along-with The Borrowers In Particular And Public In General Are Hereby Cautioned Not To Deal With The Property And Any Dealings Wit The Property Will Be Subject To The Charge of HDB Financial Services Limited, For The Amount Specified Therein With Futur nterest, Costs And Charges From The Respective Date

Details of The Borrower And Co-borrower Under Scheduled Property, With Loan Account Numbers UIC No. Outstanding Due: Date of Demand Notice And Possession Information Are Given Herein Below:

(1) NAME AND ADDRESS OF THE BORROWER, CO-BORROWER'S / GUARANTOR'S, (2) LOAN ACCOUNT NO. (3) ICTIONED LOAN AMOUNT (4) DETAILS OF THE SECURITIIES (5) DATE OF DEMAND NOTICE (6) CLAIM AMOUNT IN INK

1 TUSHAR ARORA (APPLICANT / BORROWER) KULDIP ARORA & RAVINDAR ARORA (CO-APPLICANT / CO- BORROWERS) ALL AT HNO 65 SAHKARI BAZAR ROAD SCHEME NO 1 WARD NO 9 MANDSAUR MANDSAUR-458001 MADHYA PRADESH 2. LOAN ACCOUNT NUMBER – 2107409. 3. SANCTIONED LOAN AMOUNT: Rs.28,90,000/- (Rupees Twenty Eight Lakhs Ninety Thousand Only). 4. DETAILS OF THE SECURITIES - ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING HOUSE NO. 108

Thousand Only). 4. DETAILS OF THE SECURITIES - ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING HOUSE NO. 108 SITUATED AT MAHESHWARI COLONY, WARD NO. 03, PIPLIYAMANDI, TEH. MALHARGARH, DISTT. MANDSAUR (M.P.) ADMEASURING 2600 SQ.FT. IN THE NAME OF KULDEEP S/O MANGALSINGHI ARORA S. DEMAND NOTICE DATE - 06-04-2022 6. CLAIM AMOUNT INR Rs.31,34,076/-/-(Rupees Thirty Four Thousand Seventy Six Only) as of 04-04-2022 with future contractual interest W.E.F. 04-04-2022 till actual realization. 7. DATE OF POSSESSION: 23-07-2022 2 NEHA GRUH UDHYOG (APPLICANT / BORROWER) AT WARD NO 26 587/1 SINDHI BASTI BURHANPUR - 450331 (M.P.) CHANDRAKANTA JETHWANI & NITESH KUMAR JETHWANI (CO-APPLICANT / CO-BORROWERS) ALL ATA173 INDIRA NAGAR BURHANPUR - 450331 (M.P.) 2. ACCOUNT NUMBER - 13425416 . 3. SANCTIONED LOAN AMOUNT: Rs. 49,10,083/(Rupees Forty Nine Lakhs Ten Thousand Eighty Three Only) . 4. DETAILS OF THE SECURITIES -ALL THE PIECE AND PARCEL OF PROPERTY BEARING RESIDENTIAL DIVERTED LAND & HOUSE SITUATED AT GRAM LALBAG MAL TEH. & DIST. BURHANPUR (M.P.) BEARING B.B. NO. 12 PH.NO. 07, KHASRA NO. 246/12 ADMEASURING PART AREA 1655.75 SQ.FT. (153.88 SQ.MT.). 5. DEMAND NOTICE DATE-07-05-2022 6. CLAIM AMOUNT INR Rs. 52.2.1576/- (Rupes Fifty Two Lakh Twenty One Thousand EDMAND NOTICE DATE TO THE TOTAL THE PIECE AND PARCEL OF DEMAND NOTICE DATE OF 07-05-2022 6. CLAIM AMOUNT INR Rs. 52.2.1576/- (Rupes Fifty Two Lakh Twenty One Thousand DEMAND NOTICE DATE-07-05-2022 6. CLAIM AMOUNT INR Rs. 52,21,575/- (Rupees Fifty Two Lakh Twenty One Thousan Five Hundred & Seventy Five Only) as of 06-05-2022 with future contractual interest W.E.F. 06-05-2022 till actual realization 7. DATE OF POSSESSION: 26.07.2022.

1. THE BORROWER'S ATTENTION IS INVITED TO PROVISIONS OF SUB-SECTION (8) OF SECTION 13 OF THE ACT, IN RESPECT O TIME AVAILABLE, TO REDEEM THE SECURED ASSET.

2. FOR ANY OBJECTION AND SETTLEMENT PLEASE CONTACT: Mr. Vishal Kakkar: Contact No. 9981313000 (Zonal Collectio lanager) & Mr. Ajay Sharma(Legal Manager) (Mob. No. 9926231922) at HDB Financial Services Ltd, F-14, First Floor, Cross Roac

Behind Vijay Nagar Police Station, Vijay Nagar Square, Indore – 452010 Date: 27.07.2022 Place: Mandsaur, Burhanpur Sd/- Authorised Officer
For HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED

Zonal Office: Plot No.22, Jall Road,

को खैंक **UCO BANK**

Arera Hills, Bhopal Tel.: 0755-4046009, 11

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to UCO Bank the Secured Creditor the possession of which has been taken by the Authorised Officer of UCO Bank Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is "basis for recovery of Amount mentioned below plus interest and other expenses due to UCO Bank the Secured Creditor from below mentioned Borrowers & Guarantors.

Secured Creditor from Delow mentioned Borrowers & Guarantors.						
Date & Time of E-auction : 29.08.2022 between 1.00 PM to 5.00 PM as per (IST) with unlimited extensions of 10 minutes each. Last date for submission of online bids is 28.08.2022 upto 4.30 P.M.						
Name of the Borrowers	Demand notice Dt. Possession Notice		Reserve Price EMD			
Account & Guarantors	Outstanding Amt.	Name of Property Owner	Bid Increment Amt.			
Biria Nagar Branch, Gwallor E-mail : Birian@ucobank.co.in						
Borrower-	25.01.2022	Residential property (Flat) Situated at Flat No.304, 2				
Mr. Manish Sakorkar S/o Sh. Prabhakar Sakorkar	26.05.2022	nd Floor, Old House No.26/898/1, New House No.941/1 & 941/2 Ward no. 31 & 57/459, Garima				
Co-Borrower- Mrs. Usha	₹ 2.68	Orched, M.L.B. Raod, Lashkar, District Gwalior				
Sakorkar W/o Sh. Prabhakar	Lakhs	Madhya Pradesh-474001, Area 68.77 sq. mt.	2 25 000/-			
Sakorkar Guarantor- Sh. Prabhakar	plus any unrecovered	Boundaries: East-Passage & Stairs lift, West- Below Open Land, North-Flat No.305, South- Flat No.303				
Sakorkar S/o Lt. Gopal	interest and	Owner: Smt. Usha Sakorkar w/o Sri Prabhakar				
Sakorkar		Sakorkar & Sri Manish Sakorkar s/o Sri Prabhakar	İ			
	expenses	Sakorkar				
Borrower-	Sarata Branch, Gwalior E-mail: sarata@ucobank.co.in Borrower- 25.11.2021 Double storied Residential house admeasuring plot					
Late Ashok Jain	25.11.2021 09.02.2022	Double storied Residential house admeasuring plot area 65.05 sq. mt. built up area 161.73 sq mt	· •			
s/o Late Mevaram Jain	*****	situated at House No 41/746, Ward No 41, Jasoos	20,40,000/-			
Co-Borrower- Vandana Jain w/o Late Ashok Jain	₹ D.DU Lakhs	Mahal Gali, Chawri Bazar, Janakgani, Gwalior, tehsil				
Guarantor- Prashant Jain S/o	plus any unrecovered	-Gwalior District-Gwalior (M.P.) Boundaries: North- House of Gomti Bai & Tolaram South- Rasta Nigam,	2,34,000/-			
Naresh Chandra Jain	interest and	East-House of Onkar Attar, West-House of Basant				
	other charges/ expenses	Ram, Owner- Late Ashok Jain s/o Mewaram Jain	, ,			
Bi		l nd E-mail : e-mail-bhind@ucobank.co.in				
Borrower-	25.01.2019	Residential House situated at Mohalla Shriram	₹			
Mrs. Kishori Davi W/o	26.04.2019	Empire, Fruit Mandi Ke Paas, Ward No. 35, Survey				
Ramvilas Baghel		no. 2873 & 2874 (parts) Teh. & District- Bhind Total	17,00,000/-			
& Mr. Ramvilas Baghel S/o Amar Singh Baghel	L any unrecovered	Area:- 1000 Sq Feet. Boundaries: North: 15 feet wide Road, East: House of Seema Baghel, South: 20	1,70,000/-			
Amar Jingii Dayiisi	interest and other	feet wide Road, West: Plot of Jai Singh Baghel	<u> </u>			
	charges/ expenses	Owner-Mrs. Kishori Devi W/o Ramvilas Baghel	₹ 10,000/-			

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided below website: https://msteecommerce.com/ auctionhome/lbapl/index.jsp & https://ibapl.in

Since UCO Bank has taken only Symbolic possession of the aforementioned properties, it is the responsibility of

Sq.ft. (Two Deeds) situated at survey/Araji No. 843 (Part), Ward No. 37(new), Purani Galla Mandi, Bhind, Madhya Pradesh Boundaries: North: Road Nigam 20' East: House of Shri. Keshav Singh

Kushwah South: Road Nigam 20' West: House of Shri. Subhash Jain Owner: Mrs. Meera Shivhare

W/o Surendra Kumar Shivhare & Surendra Kuma

70,00,000/-

7,00,000/-

₹ 10,000/-

UCO Bank

Place: Bhopal

Date : 26.07.2022

20.02.2019 Residential cum commercial building jointly constructed on two plot (Area- 687.5+312.5= 1000)

Shivhare S/o Harnarayan Shivhare

prospective bidders to inspect the properties and satisfy themselves about the same and the bidder has to make their

own due diligence regarding property.

The borrower/guarantor are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with up to dated interest and ancillary expenses before the date of auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered along with interest and cost.

This is also treated as 30 days statutory notice under SARFAESI Act.

26.04.2019

₹14.54 Lakhs

plus any

unrecovered

interest and other charges/

expenses

Borrower-

Shivhare

. M/s Gurukripa Traders,

(Prop. Mrs. Meera Shivhare W/o Shri Surendra Kumar

2. M/s Ramesh chandra Suresh chandra, (Prop. Surendra Kumar Shivhare

S/o Harnaravan Shivhare)

Note: Interested bidder have to make user ID & Password them selves & it will take minimum two days time. Therefor bidders are requested to prepare user ID & Password before Last Date. Date: 27.07.2022 Place: Bhopal **Authorised Officer**

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED ogd. Office:11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ga Marg, Lower Parel, Mumbal-400013. CIN No. U67190MH200 POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

eas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice as entioned below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice vithin 60 days from the date of the said notice.

The borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, i particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4)

The borrower, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capital Financial Services Limited, for an amount referred to below along with interes hereon and penal interest, charges, costs etc. from date of demand notice.

Representative(s) TCFLA02840 1) Mr. Jayprakash Agrawal 2) Mrs. Meena Agrawal, 3) Mrs. New Sky Mega Mart TCFLA02840 100010969579 Date of Possession Representative(s) In Mr. Jayprakash Agrawal 2) Mrs. Meena Agrawal, 3) Mrs. New Sky Mega Mart Hundred Seventy Four Only) due in Loan Account No. TCFLA0284000011067404 and Rs. 23,28,166 /- (Rupees Twenty Three Lakh Twenty Eight Thouseand One Hundred Skty Six Only) due and payable in Loan				
2) Mrs. Meena Agrawal, 3) M/s. New Sky Mega Mart TCFLA02840 TCFLA02840 TCFLA02840 TDate of Possession TCFLA02840 Date of TCFLA02840 Date of TCFLA02840 Date of TCFLA02840 Date of TCFLA028400 Date of TCFLA028400 Date of TCFLA0284000 Date of TCFLA028400 Date of TCFLA0284000 Date of TCFLA028400 Date of TCFLA0284000 Date of TCFLA02840000000 Date of TCFLA028400000000000000000000000000000000000	Loan Account No.	Legal Heir(s)/Legal		
Possession 577, Badi Gwal Toli, Near Sixty Six Only) due and payable in Loan	TCFLA02840 00011067404 & TCFLA02840 00010969579	2) Mrs. Meena Agrawal, 3) M/s. New Sky Mega Mart Through its Proprietor Mr. Jayprakash Agrawal All having add at: House No. 577, Badi Gwal Toli, Near UCO Bank, Tilak Nagar,	Five Lakh Thirty Nine Thousand Two Hundred Seventy Four Only) due in Loan Account No. TCFLA0284000011067404 and Rs. 23,28,166 /- (Rupees Twenty Three	
21st July 2022 Main Road, Indore on 11th April 2022	Possession		Sixty Six Önly) due and payable in Loan Account No. TCFLA0284000010969579 as on 11th April 2022	

Description of Property: Property: All That piece & parcel of Eastern part of Municipa House No. 577 at Badi Gwal toll Main, Indore. Plot Area 1140 Sq. Ft, which is bounded as under.- On or towards East: Open Land, On or towards West: Shops then Road, On or towards North: House of Rajendra Singh, On or towards South: House of Babulal Sd/- Authorised Officer, Date: - 27/07/2022 For TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES Limited Place: - Indore

SHRIRAM HOUSING FINANCE LIMITED

Reg.Off.: Office No.123, Angappa Naicken Street, Chennai-60000 Branch Office: 24 BB, First Floor, Aarna Square, Slice - 5, Sector - B, Scheme No. 78, AB Road, Opp. Shalimar Township Indore - 452010 Website: www.shriramhousing.in

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Whereas, the undersigned being the authorised officer of Shriram Housing Finance Limited (SHFL) under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (said Act) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued demand notices to the Borrowers details of which are mentioned in the table below to repay the amount mentioned in the said demand notices. The Borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said Rules, on this 25th day of July, 2022.

The Borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Shriram Housing Finance Ltd. for an amount as mentioned herein below with interest thereon.

Borrower Name and address	Amount due as per Demand Notice	Description of Property
1. Mr. Manish Tambi	Rs. 35,44,250/-	All that piece and parcel of
S/o Mr. Bhupendra	(Rupees Thirty	property Residential Flat No.
Tambi and	Five Lakh Forty	402, 4th Floor, Classic Crown
2. Mrs. Neha Tambi	Four Thousand	Building, Constructed on Part
W/o Mr. Manish Tambi	Two Hundred	of Plot No. 5/2(New No. 18/2),
	Fifty Only) due	Old Palasia, Indore, MP-
Address: Flat No. 402,	and payable as	452018, Admeasuring 1573
4th Floor, Classic	on 18.05.2022	Sq. Feet Super built-up area.
Crown, 5/2 Old Palasia,		Bounded by:
Indore, MP – 4520 18	Notice dated:	North:- Common Passage
Loan Account No.	19.05.2022	South:- Road
SLPHINDR0000393		East:- Flat No. 403
		West:- Flat No. 401

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Place: Indore Sd/- Authorised Officer Date: 25/07/2022 Shriram Housing Finance Limited

SOM DISTILLERIES & BREWERIES LTD Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 110029 **Phone**: +91-11-26169909, 26169712 **Fa**x: +91-11-26195897

Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)-462011 Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470 Email : compliance@somindia.com Website: www.somindia.com CIN : L74899DL1993PLC052787 (BSE : 507514, NSE : SDBL)

NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING otice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the members of th Som Distilleries and Breweries Limited will be held on Friday, the 19th day of August, 2022 at 11:30 am at the Factory Premises, Village Rojrachak, Chiklod Road, District Raisen (Madhya Pradesh) to transact the business, as set out in the Notice convening the EGM. The Company has commenced to send the Natice convening EGM on July 28, 2022, throug

lectronic mode to the Members whose email addresses are registered with the Company, depositories in accordance with the Circulars issued by the MCAvide General Circular No.10/2021 dated June 23, 2021 read with Circulars No.14/2020 dated April 8, 2020. Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No.22/2020 dated June 15, 2020, Circular No.33/2020 dated September 28, 2020 and Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020end SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79dated May 12, 2020. The Notice convening the EGMis available on the website of the Company at www.somindia.com. the ebsites of BSE & NSE at <u>www.bseindia.com</u> & <u>www.nseindia.com</u> and on the website of NSDL at <u>www.evoting.nsdl.com</u>.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Compa (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice onvening the EGM using electronic voting system ("e-voting") provided by NSDL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on (Friday), August 12, 2022 ("cut-off date").

The remote e-voting period commences on (Tuesday) August 16, 2022 (IST 9.00 am) and ends on (Thursday) August 18, 2022 (IST 5.00 pm). During this period, the Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Those Members, who shall be present in the EGM and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the EGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM but shall not be entitled to cast their

Those members whose e-mail ids are not registered with the depositories for obtaining login redentials for e-voting & for registering their e-mail ids are requested to send required details and documents as described in the EGM Notice to Company's e-mail ID <u>compliance@somindia.com</u> or to RTA e-mail ID <u>info@masserv.com</u>

The documents referred to in the EGM notice are available for inspection at the Registere Office of the Company & will also be available at the time of EGM.

Mr. Neelesh Jain, Practicing Company Secretary (ICSI Membership no. FCS 6436) has bee appointed as the Scrutinizer to scrutinize the 'remote e-voting' process and voting at the EGM,

The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company at <u>www.somindia.com</u> and on the website of NSDL <u>www.evoting.nsdl.com</u> immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company

after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as on the cutoff date: may obtain the login ID and password by sending a request to <u>evoting@nsdl.co.in</u> lowever, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting, he/she can use his/he existing User ID and password for casting the votes.

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and the e-voting manual available at https://www.evoting.nsdl.com/ under help section or contact at toll free number 1800225533. Email: evoting@nsdl.co.in or aforesaid toll-free number.

By Order of the Board For Som Distilleries and Breweries Limited

Nakul Seth

GOLDCREST CORPORATION LIMITED

L74999MH1983PLC029408 Regd. Office: Devidas Mansion, 3rd Floor, Merew Mumbai - 400 001 Phone: 022 - 22837489 / 90 Website: www.goldcrestgroup.com Email: office@goldcrestgroup.com

NOTICE
Sub.: TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION & PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authorit (Accounting Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016 (the "Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016.

The rules inter alia contain provisions for transfer of all shares, in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholder for seven consecutive years or more,to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority set up by the Central Government. The Company is also sending individual communication to those shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority under the said Rules at their latest available address simultaneously.

The Company has uploaded the relevant details, as may be required, of such shareholder(s) and shares due for transfer to IEPF on its website www.goldcrestgroup.com. Shareholders are requested to refer to the page www.goldcrestgroup.com/wp-content/files List shareholders whose shares are to be tansferred to IEPF 2014-15.pdf transferred to IEPF Authority.

The Shareholder(s) may note that the shares transferred to IEPF, including dividend and other benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

Notice is hereby given to all such shareholders to make necessar application to the Company/RTA M/s. Purva Sharegistry (India) Pvt. Ltd. having its Corporate Office at 9, Shiv Shakti Industrial Estate,Sitaram Mills npound, J.R. Boricha Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 011 Tel: 022-23018261, 23016761 Email:support@purvashare.com before November 15, 2022 claiming the unclaimed dividend for the year 2014-15 or thereafte so that the shares in respect of such unclaimed dividend are not being transferred to the IEPF Authority. Please provide following details in all your communications: 1. Name of the Company, 2. Folio No, or DP ID and Client ID, 3. Name of the Shareholder, 4. Contact No. 5. Email ID. Also provide selfattested KYC documents of the shareholder Like PAN, cancelled cheque leaf & latest utility bill as address proof.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by November 15, 2022. Shareholders may note that the Company will transfer the shares and unclaimed dividend to the IEPF Authority including all benefit accruing on such shares, without any further notice, by following the due process as under:

In case the shares are held in physical form - The Company shall issue duplicate share certificate(s)in lieu of the original share certificate(s) held by the shareholder and after issue of duplicate share certificate(s), the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificate(s) into DEMAT form and transfer the same to IEPF Suspense account.


In case the shares are held in demat mode – by transfer of shares directly

to demat account of IEPF i.e. IEPF Suspense account.

The shareholder may further note that the details uploaded by the Compani on its website shall be deemed to be adequate notice in respect of issue of new certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPE Authority pursuant to the rules. In case the shareholder(s) have any queries on the subject matter and the

rules, they may contact the Company and RTA on detail mentioned above. For GOLDCREST CORPORATION LIMITED Place: Mumbal MARISA FERREIRA

COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER



Grow your business with Business Standard – the smart choice to reach those who matter!

71% readers in NCCS A1 and A2

12 English, 6 Hindi editions: 1000+ towns

6 lakh registered users, 12 million unique visitors per month

Print readers spend >15 min per day, digital >5 min per visit

The most-read business medium in top B-Schools

150+ events every year

Write to sales@bsmail.in now, for a customised solution to your business requirements

Business Standard Insight Out





business-standard.com